MEDICAMEN Biotech Limited



Regd. & Corp. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019 (INDIA) Tel.: 011 - 47589500-51 (50 Lines), E-mail: info@medicamen.com Web: www.medicamen.com CIN No.: L74899DL1993PLC056594

Date: 06.12.2024

Ref: STEX/Published-2024-25

BSE Limited

Department of Corporate Services-Listing PJ Towers, Dalal Street Mumbai- 400001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex

Bandra (E) Mumbai- 400051

Scrip Code-531146

Symbol- MEDICAMEQ

<u>Sub.: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in English and Hindi newspapers, namely Financial Express and Jansatta respectively on November 29, 2024.

The above information is also available on the website of the Company at www.medicamen.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,

For Medicamen Biotech Limited

Parul Choudhary Company Secretary & Compliance Officer ACS-44157

Encl: As above.

FINANCIAL EXPRESS

PUBLIC NOTICE SIEMENS LIMITED

Registered Office: Birla Aurora, Level 21, Plot No. 1080, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the under-mentioned securities of the Company has/have been lost misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

applicating frashare applies to the company to issue unfine to think and a Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation

Name[s] of holder[s] {and Jt. Holder[s], if any}	Folio Number	No. of Securities and Face value	Certificate Nos.	Distinctive Nos.	
Lata Utamsingh (Deceased) and Shyam Utamsingh (Deceased)	SIL0000345	250 equity shares of Rs. 2/- each	420220	152496 - 152745	
	SIL0000345	250 equity shares of Rs. 2/- each	B 450220	168739921 - 168740170	

Date: 29/11/2024 Place Mumbai

[Name of Applicant / Claimant] Mr. Vikram Utamsingh



MEDICAMEN BIOTECH LIMITED

Reg. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi, 110019
CIN: L74899DL1993PLC056594 Contact No.: 011-47589500
Website: www.medicamen.com Email: cs@medicamen.com

NOTICE

TRANSFER OF EQUITY SHARES AND UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT

This Notice is given pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 07, 2016 and as amended from time to time thereafter ("the Rules").

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund Account ("the IEPF Account").

Pursuant to the provisions set out in the Rules, the Company has communicated through individual notice(s), to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEFF Account under the said Rules for taking appropriate action(s) to claim their unpaid dividend.

The Company has uploaded full details of such shares, which are due for transfer on or before December 18, 2024 to IEPF Account, on its website at https://www.medicamen.com and the shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that, as per the requirement of the Rules, the Company would be issuing new share certificate(s) for transfer of such shares to IEPF, in lieu of the original would be soming liew shale contractely in unlessed to such shale so the such shale cartificate(s) which are registered in their name and these original share certificate(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Account pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholders by December 18, 2024, the Company with a view to comply with the requirements set out in the Rules, the Company shall transfer the corresponding shares and unclaimed dividend (declared by the Company on August 02, 2017) to the IEPF Account by the due dates as per procedure stipulated in the Rules.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority/ IEPF Account including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by concerned shareholder from IEPF Authority/IEPF Account, after following the procedure as prescribed under the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agent - Mrs. Link Intime India Pvt. Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Tel. No.: 011-49411000, Email: delhi@linkintime.co.in.

, By Order of the Board of Directors For Medicamen Biotech Limited

New Delhi November 28 2024 (Parul Choudhary)

Company Secretary
[Nodal Officer for the purpose of IEPF]

AND RUBBER & PRODUCE COMPANY LIMITED

CIN: U25191KL1937PLC000691

te: 27/1032, Panampilly Nagar, Ernakulam- 682 036, Kerala 312 Fax: 0484 2312541, E-mail: secmidland@avtplantations.co.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

OF UNCLAIMED SHARES OF THE MIDLAND RUBBER & COMPANY LIMITED TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

issued pursuant to Section 124 and 125 of the Companies d with the Investor Education and Protection Fund Authority Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from the Rules). As per the above Rules, the company is required e Interim Dividend for the Financial Year 2017-2018 which imed for the period of seven consecutive years to Investor nd Protection Fund (IEPF). The corresponding shares in hich dividend has not been paid or claimed for seven years or more will also be transferred to the IEPF in the cribed under the Rules.

tices as reminders are being sent to concerned shareholders s are liable to be transferred to IEPF, to their latest available details of such shareholders are also displayed on the ebsite www.midland-rubber.com, Concerned shareholders ed to claim the unclaimed Interim Dividend for the ar 2017-2018 by March 11, 2025. Those equity share(s) in hich the dividend remains unclaimed, including all the ruing on such shares, shall be transferred to IEPF as per re stipulated in the Rules, as follows:-

reholders whose shares are in physical mode, that are be transferred to IEPF Account may note that the company pe issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the share certificate(s) held by them for this purpose. Upon ue, the original share certificate(s) will stand automatically d and will be non-negotiable. Thereafter the Company e informing the depository by way of corporate action to the duplicate share certificate into DEMAT form and it in favour of the IEPF Authority.

ct of holding in demat mode, by informing the depository of corporate action, where the shareholders have their s for transfer of shares in favour of the IEPF Authority.

ed dividends and the shares accordingly transferred to the unt of the IEPF authority including the benefits accrued ry, can be claimed by the shareholders from IEPF Authority ig the procedure prescribed in the Rules. No claim shall lie company in respect of the unclaimed dividends and equity

es on the above, the shareholders may contact the Company mentioned address / Company's Registrar and Transfer Agent, Corporate Services Ltd, Subramanian Buildings, 5th Floor, ouse Road, Chennai 600002, Phone: 044 40020780 / 781, r@cameoindia.com Queries: www.wisdom.cameoindia.com

For The Midland Rubber & Produce Company Limited

Sd/-

2024

Ajit Thomas Chairman

"IMPORTANT"

e is taken prior to acceptance of advertising not possible to verify its contents. The Indian polymer is to possible to verify its contents. The Indian polymer is to possible to verify its contents. The Indian polymer is to possible to verify its contents. The Indian polymer is to possible to verify its contents of any actions with companies, associations of advertising in its newspapers or Publications. In the Indian polymer is the Indian polym



KALYANI FORGE LIMITEI

CIN - L28910MH1979PLC020959 TS 16949 & QS 9000 ACCREDITED CONPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS,

www.kalyaniforge.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of the Companies Ac and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) R Members who have not encashed or claimed dividend for 7 (seven) consecutransferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Koregaon Bhima, Tehsil Sirur Dist. Pune HE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II Phone (02137) 252335 / 252755 / 252757 Fax (02137R INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

लॉकर धारकों को नोटिस

लॉकर किराया भगतान के चककर्ती

यह नोटिस उन ग्राहकों के लिए है जिन्होंने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं में लॉकर किराए पर लिए हैं और 3 साल

यह नात्रस्य उन प्राहकों के लिए हैं। जब जिल्हान एकाइएफता बका लामटेड को लागन आवाजों ने प्राचित परिष्य एका रहें ज से अधिक समय में किराया नहीं चुकाया है। बैंक ने समय-समय पर ग्राहकों को कई नोटिस भेजकर लॉकर किराये का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन कोई प्रतिक्रियों को पह अतिम नोटिस दिया गया है, ऐसान करने पर बैंक लॉकर किराय पर लेन वाल की लागत, जीविस और जिम्मेदारी पर लॉकर को तो इने के लिए आगे बढ़ेगा। बैंक बकाया किराया, लागत और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, की वसूली के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

	प्राहक का नाम	याखा का नाम	सॉकरन	लॉकर का प्रकार	दिनांक से अतिदेय
1	लक्ष्मी कांत गुप्ता	्रीलं पार्कं एक्सटेंशन	349	पूर्व छोर्ट	े 01 अप्रैल 2024

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एस-१७, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स. नई दिल्ली

HDFC BANK

MEDICAMEN BIOTECH LIMITED

Reg. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi, 1 CIN: L74899DL1993PLC056594 Contact No.: 011-47589500

NOTICE

TRANSFER OF EQUITY SHARES AND UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT

This Notice is given pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 07, 2016 and as amended from time to time thereafter ("the Rules") The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund Account ("the IEPF Account").

Pursuant to the provisions set out in the Rules, the Company has communicated through individual notice(s), to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account under the said Rules for taking appropriate action(s) to claim their unpaid dividend.

The Company has uploaded full details of such shares, which are due for transfer on or before December 18, 2024 to IEPF Account, on its website at https://www.medicamen.com and the shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that, as per the requirement of the Rules, the Company would be issuing new share certificate(s) for transfer of such shares to IEPF, in lieu of the original share certificate(s) which are registered in their name and these original share certificate(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Account pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholders by December 18, 2024, the Company with a view to comply with the requirements set out in the Rules, the Company shall transfer the corresponding shares and unclaimed dividend (declared by the Company on August 02, 2017) to the IEPF Account by the due dates as per procedure

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority/ IEPF Account including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by concerned shareholder from IEPF Authority/IEPF Account, after following the procedure as prescribed under the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agent - M/s. Link Intime India Pvt. Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Tel: No.: 011-49411000, Email: delhi@linkintime.co.in.

By Order of the Board of Directors For Medicamen Biotech Limited

New Delhi November 28 2024

(Parul Choudhary) Company Secretary [Nodal Officer for the purpose of IEPF]

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिलं, टावर स्, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 सीआईएन नं. U67190MH2008PLC187552

कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 टाटा कैंपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित एक मांग नीटिस जारी किया है, जिसमें **उ**त्तरकर्ताओं को न नीटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नीटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य तौर पर जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमन के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

और आम तौर पर जनता को, संपत्ति के साथ सौदा न करने के लिए विशेष रूप से उधारकर्ताओं चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड को नीचे निर्दिष्ट राशि, उसके साथ उस पर ब्याज और नीचे निर्दिष्ट तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज- II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु - 600 002. #044-42995000, 044-42995050

संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

 नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के **ही** सूचना।

वेशेष रूप से कर्जदारों, सह-कर्जदारों और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित अचल ह कब्जा इविवटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, ब्रिम्नुलिखित कर्जदारों से इविवटास नमिटेड को देय राशि की वसली के लिए 17.12.2024 को ''जैसा है जहां है'' ''जो है यही है स्थिति में'' बेची जाएगी।

लन तर्मा आवासीय संपत्ति गैर कृषि संपत्ति का समस्त भाग, जिसका क्षेत्रफल 135 वर्ग गज है=4m-4s, जो खेवट संख्य शिव नाथ 537, खतौनी संख्या 692 में सम्मिलित कुल 24के-0एम भूमि का 13/4320 हिस्सा है, 1एम-4के, खेवट संख्या

538, खतौनी संख्या 693, कित्ते 4 और 1एम-5के में सम्मिलित कुल 23के-17एम भूमि का 13/4293 हिस्सा है, बी.ओ-अंबाला जो खेवट संख्या 539, खतौनी संख्या 694, कित्ते 16 में सम्मिलत कुल 25के-2एम भूमि का 14/22518 हिस्सा है, जो पूर्व में खाली प्लॉट 27, पश्चिम में रास्ता 27, दक्षिण में सुमन देवी का घर 45, और उत्तर में हनुमान का घर SEIBSRS0320746 45 से सीमाबद्ध है, जो गांव चत्तरगढ़ पेट्टी, तहसील और जिला सिरसा में स्थित, उससे संबद्ध सभी अधिकारों के 7414/- 23-02-2023 से मासिक शेष. साथ, बिक्री विलेख संख्या 7638, दिनांक 31-12-2014, म्यूटेशन संख्या 11625, दिनांक 11-2-2015 और वर्ष द सहित अतिरिक्त ब्याज 2017-18 की जमाबंदी। उत्तर में : हनुमान का घर (45'0") दक्षिण में : सुमन देवी का घर(45'0") पूर्व में 19-11-2024 तक अन्य घर (27'0'), पश्चिम में : गली (27'0'') माप :135 वर्ग गज, उप-पंजीकरण जिला एसएलएसआर और पंजीकरण जिला सिरसा में स्थित है। साथ में धरती से जुड़ी सभी इमारतें और संरचना या धरती से जुड़ी किसी भी

चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई, वर्तमान और भावी दोनों और उससे जुड़े सभी सुखभोगी/मामूली अधिकार आरक्षित मूल्यः रु. 10,00,800/-संपर्क नामः संजय कुमारः 8847624015

जमा धरोहर राशिः रु. 1,00,080/-संदीप राठी: 7027421010

नीलामी की तिथि : 23.03.2024

ामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए www.equitasbank.com तथा https://www.bankeauctions.com में प्रावधानित लिंक देखें।

स्थान : चेन्नई

बीर स्कूल रोडं सी/जी,

अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास् स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

SSION NOTICE

क्षेत्रीय कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक, एनबीसीसी प्लैंस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विंहार, नई दिल्ली 110003

> [नियम - 8(1)] भौतिक कब्जे का नोटिस

लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों ने प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित 2 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स, सुश्री किरण पब्बी, मेसर्स लंदमी रोंड लाइन्स श्री कुलबीर सिंह पब्बी और श्री राहुल पब्बी (इसके बाद टर / सुरक्षा प्रदाता के रूप में संदर्भित) को चुकाने के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तारीखों पर एक मांग नोटिस उनसे मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का, आकरिसंक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से । करने का आहवान किया गया है।

का नाम	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि (रूपये में)
ाईसीआई बैंक	18 मई. 2024	12,79,54,263.2
एफसी-बैंक	्र 20 जून, 2024	5,07,47,172.0
कुल	Carl Comment of the C	17,87,01,435.2

बकाया राशि को इसकें बंद सामृहिक रूप से "बकाया राशि" कहा जाएँगा)।

व्ति / गारंटर द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी / बंधककर्ती / गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बङ्खल ने जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद द्वारा क्रेस संख्या 256 / सरफेसी अधिनियम / 24-10-2024 के तहत पारित आदेशों के अनुसरण में, उक्त नियमों के नियम ह के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, और इसे वर्ष 25 नवंबर 2024 को आईसीआई बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के

ऋणी / बंधककर्ता / गारंटर और आम जनता को इसके द्वारा सावधान किया जाता है संपत्ति से कोई लेन-देन न करें और संपत्ति बकाया राशि के साथे-साथ भुगतान/प्राप्ति होने तक अनुबंधगत व्याज दर पर व्याज, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन

ो छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा गेर आकृष्ट किया जाता है।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण

वक जो यूनिट संख्या – 7बी, द्वितीय तल, रामा पैलेस, नीलम बाटा पलाईओवर के पास, पुलिस चौकी के पास, सेक्टर 20बी, 121006 में स्थित है तथा सुश्री किरण पब्बी के स्वामित्व में है।

प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड la

कॉर्पोरेंट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55,4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032, तमिलनाडु

तिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनिय्रम, 2002 ('अधिनियम') और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के

मंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की घारा 13(12) के तहत प्रदत्त हुए नियम 3 के साथ अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों से कहा गया है कि वे संबंधित सूचना क सुचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि कर्जदार मांग सूचना की सर्विस से बच s अनुसार चिपकाने और प्रकाशन से नोटिस की सेवा प्रभावित हो रही है। मांग सूचना की सामग्री नीचे उद्धृत की गई है

जंदारों सह-कर्जदारों का नाम एवं पत

मांग सूचना की तिथि राशि तथा बकाया राशि

सम्पत्ति प्रतिभूत आस्ति का बिबरण